

**Newgen Software Technologies Limited**

CIN: L72200DL1992PLC049074, Registered Office: E-44/13, Okhla Phase II, New Delhi 110020, India
Tel: +91 11 46533200, 26384060, 26384146 Fax: +91 11 26383963

Date: 21st January 2026

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra- Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400051
Ref.: Newgen Software Technologies Limited (NEWGEN/INE619B01017) Scrip Code – 540900	Ref.: Newgen Software Technologies Limited (NEWGEN/INE619B01017)

Sub: Financial Results- Newspaper Advertisement

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed the copy of advertisements published in Business Standard (All edition-English) and Business Standard (Regional-Hindi) dated 21st January 2026, in relation to Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended 31st December 2025.

This is for your kind information and record.

Thanking you.

For Newgen Software Technologies Limited

Aman Mourya
Company Secretary & Head-Legal

Encl.: a/a



NewgenONE Digital Transformation Platform

A comprehensive low code, cloud-based platform for every enterprise

Key Highlights - Q3 FY'26 v/s Q3 FY'25

Annuity Revenues

₹250 Cr

20% Q3 YoY Growth

Profit after Tax(adjusted)*

₹90 Cr

22.5% PAT Margin

US Geography Revenue

₹96 Cr

21% Q3 YoY Growth

Extract of Consolidated Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2025

Sl. No.	Particulars	Consolidated (Amount in Rupees Lakhs)				
		Quarter Ended		Nine months Ended		
		31 December 2025 (Unaudited)	30 September 2025 (Unaudited)	31 December 2024 (Unaudited)	31 December 2025 (Unaudited)	31 December 2024 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	40,027.75	40,079.35	38,111.26	1,12,172.73	1,05,698.94
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	11,515.09	10,533.54	10,663.07	28,459.31	26,069.67
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,005.31	10,533.54	10,663.07	24,949.53	26,069.67
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,281.51	8,174.24	8,900.17	19,427.81	20,690.32
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6,808.30	8,851.88	8,887.61	20,934.52	20,852.05
6.	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10 each)	14,078.82	14,068.80	13,995.54	14,078.82	13,995.54
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	1,37,621.91	1,37,621.91	1,08,373.58	1,37,621.91	1,08,373.58
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	1. Basic EPS:	4.46	5.82	6.36	13.83	14.79
	2. Diluted EPS:	4.37	5.69	6.16	13.51	14.31

NOTE:

1. The above financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2025 were reviewed by the Audit Committee in the meeting held on 20 January 2026 and approved by the Board of Directors in their meeting held on 20 January 2026. Standalone and Consolidated financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31 December 2025 are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and relevant rules thereunder. The company has complied with the guidelines issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI) to the extent applicable.

2. The auditors have carried out limited review of Standalone and Consolidated results of the Company for the quarter and nine months ended 31 December 2025. There are no modifications in the Auditor's review report on these financial results.

3. Key Standalone Financial Information

(Amount in Rupees Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Nine months Ended	
	31 December 2025 (Unaudited)	30 September 2025 (Unaudited)	31 December 2024 (Unaudited)	31 December 2025 (Unaudited)	31 December 2024 (Unaudited)
Revenue from operations	35,522.29	36,618.07	34,634.16	1,00,197.52	96,038.50
Profit before tax	10,608.72	9,830.47	9,922.24	26,561.28	24,075.22
Profit after tax	5,644.74	7,669.14	8,369.99	18,183.32	19,195.44

4. The Board of Directors in their meeting held on 2 May 2025 recommended a dividend of INR 5.00 per equity share for the financial year ended 31 March 2025 which was approved by the shareholder at the Annual General Meeting held on 25 July 2025. The dividend was paid on 1 August 2025.

5. On 21 November 2025, the Government of India notified the four Labour Codes - the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 - consolidating 29 existing labour laws. The Ministry of Labour & Employment published draft Central Rules and FAQs to enable assessment of the financial impact due to changes in regulations. The Company has assessed and disclosed the incremental impact of these changes on the basis of expert involved and the best information available, consistent with the guidance provided by the Institute of Chartered Accountants of India. Considering the materiality and regulatory-driven, non-recurring nature of this impact, the Company has presented such incremental impact as "Impact of Labour Codes" under "Exceptional Items" in the statement of consolidated and standalone financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2025. The incremental impact consisting of gratuity of INR 2,626.41 Lakhs and long-term compensated absences of INR 883.37 Lakhs primarily arises due to change in wage definition. The Company continues to monitor the finalisation of Central / State Rules and clarifications from the Government on other aspects of the Labour Code and would provide appropriate accounting effect on the basis of such developments as needed.

6. Previous period/years figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to correspond with the current period/year classification/disclosure, which are not considered material to these financial results.

7. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2025 are available on the websites of the Stock Exchanges of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also available under the Investor Relations section of our website www.newgensoft.com.

* Excludes Exceptional Items. Post considering the statutory impact of new labour codes, the Profit after Tax is Rs 63 crore for Q3 FY'26 and Rs 194 crore for 9M FY'26.

NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L7200DL1992PLC049074
 Registered Office: E-44/13, Okhla Phase 2, New Delhi-110020
 Tel: (+91)-11-40770100, 46533200, 26963571, Fax: (+91)-11-26856936
 Email/ URL: investors@newgensoft.com / <https://newgensoft.com>
 Place: New Delhi Date: 20.01.2026



For and on behalf of the Board
 Sd/-
 T. S. Varadarajan
 Whole Time Director
 DIN: 00263115

